



प्रभारी

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 500  
K.M. 30  
Dep'tt 250  
C.P.B. 220

सं. 575]

No. 575]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2004/पौष 10, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2004/PAUSA 10, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

सं० 118/2004-सीमाशुल्क

प्रभारी  
रा० वि० एकक

सा.का.नि. 847(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 5/2004-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 343 के स्तंभ (2) की प्रविष्टि में “72” प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी 2005 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 356/36/2004-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं० 5/2004-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 2004 [सा० का० नि० 18 (अ), तारीख 8 जनवरी, 2004] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 68/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 [सा० का० नि० 410 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2004] द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2004

No. 118/2004-CUSTOMS

**G.S.R. 847(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2004-Customs, dated the 8th January, 2004, namely:-

In the said notification, in the Table, against S.No. 343, for the entry in column (2), the entry "72" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2005.

[F. No. 356/36/2004-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

**Foot Note:—** The principal notification No.5/2004-Customs, dated the 8th January, 2004 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 18 (E), dated the 8th January, 2004 and was last amended vide notification No. 68/2004-Customs, dated the 9th July, 2004 [G.S.R. 410(E), dated the 9th July, 2004].

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

सं० 119/2004-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 848(अ).**— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 300 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" 300क	84 और 85	ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन और शीर्ष 8471 के अंतर्गत आने वाली उसकी यूनिटों के लिए सटैटिक कन्वर्टर के विनिर्माण में प्रयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात:-  (i) उपशीर्ष सं० 8473 30 के अंतर्गत आने वाली पापुलेटिड पीसीबी (ii) उपशीर्ष सं० 8534 31 के अंतर्गत आने वाले ट्रांसफामर (iii) उपशीर्ष सं० 8504 90 के अंतर्गत आने वाले सभी माल (iv) उपशीर्ष सं० 8507 20 के अंतर्गत आने वाली एसएमएफ बेटरी (v) उपशीर्ष सं० 8544 के अंतर्गत आने वाली इनामैल्ड कॉपर वायर	कुछ नहीं	-	5"

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी 2005 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/111/2004-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**टिप्पण :**—अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा० का० नि० 118 (अ); तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 112/2004-सीमाशुल्क, तारीख 19 नवम्बर, 2004 [सा० का० नि० 759 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 2004] द्वारा किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2004

#### No. 119/2004-CUSTOMS

**G.S.R. 848(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No. 300 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"300A.	84 or 85	The following goods, for use in the manufacture of static converters for automatic data processing machines and units thereof of heading 8471, namely:- (i) Populated Printed Circuit Boards falling under sub-heading 8473 30; (ii) Transformers falling under sub-heading 8504 31; (iii) All goods falling under sub-heading 8504 90; (iv) SMF Battery falling under sub-heading 8507 20; (v) Enamelled copper wire falling under heading 8544.	Nil	-	5".

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2005.

[F.No. 354/111/2004-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

**Foot Note :—** The principal notification No. 21/2002-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 118(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 and was last amended vide notification No. 112/2004-Customs, dated the 19th November, 2004 [G.S.R. 759(E), dated the 19th November, 2004].

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

सं० 36/2004-सेवा कर

**सा.का.नि. 849(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 ( 1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस उपधारा के अभिप्राय के लिए निम्नलिखित करादेय सेवाओं को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) (i) टेलिफोन कनेक्शन या पेजर या टेलिग्राफ अथवा टेलेक्स के माध्यम से कोई संसूचना या फेक्सीमाइल संसूचना या पट्टे पर दिए गए सर्किट से संबंधित सेवाएं;

- (ii) साधारण बीमा कारोबार से संबंधित सेवाएं;
- (iii) बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा सहायक संबंधित सेवाएं ; और
- (iv) किसी मालवाहक गाड़ी में सड़क द्वारा माल के परिवहन से संबंधित सेवाएं, जबकि माल भेजने वाला या माल पाने वाला निम्नलिखित हो,-
  - (क) कोई भी कारखाना जो कि कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) में पंजीकृत है अथवा परिचालित है;
  - (ख) कोई भी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत स्थापित की गई हो;
  - (ग) कोई भी कारपोरेशन जो किसी भी विधि के अंतर्गत स्थापित किया गया हो;
  - (घ) कोई भी सोसायटी जो कि सोसायटी अधिनियम 1860 (1860 का 21) में अथवा भारत के किसी अन्य हिस्से में तत्समान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो;
  - (ङ) कोई भी कोपरेटिव सोसायटी जो किसी भी विधि के अंदर स्थापित हो;
  - (च) कोई भी उत्पाद शुल्क के माल का व्यवहारी जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 (1944 का 1) अथवा उसके अंतर्गत पंजीकृत हो; या
  - (छ) किसी भी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या पंजीकृत कोई बॉडी कार्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म;
- (ख) कोई भी करादेय सेवाएं जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदत्त हैं जो अप्रवासी है या भारत के बाहर का है और भारत में उसका कोई कार्यालय नहीं है ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2005 से प्रभावी होगी ।

[ फा. सं. 341/18/2004-टीआरयू (पार्ट) ]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2004

#### No. 36/2004-SERVICE TAX

**G.S.R. 849(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby notifies the following taxable services for the purposes of the said sub-section, namely:-

- (A) the services,-
  - (i) in relation to a telephone connection or pager or a communication through telegraph or telex or a facsimile communication or a leased circuit;
  - (ii) in relation to general insurance business;
  - (iii) in relation to insurance auxiliary service by an insurance agent; and
  - (iv) in relation to transport of goods by road in a goods carriage, where the consignor or consignee of goods is,-
    - (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
    - (b) any company established by or under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
    - (c) any corporation established by or under any law;
    - (d) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any law corresponding to that Act in force in any part of India;
    - (e) any co-operative society established by or under any law;

- (f) any dealer of excisable goods, who is registered under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder; or
- (g) any body corporate established, or a partnership firm registered, by or under any law;
- (B) any taxable service provided by a person who is a non-resident or is from outside India, does not have any office in India.
2. This notification shall come into force on the first day of January, 2005.

[F. No. 341/18/2004-TRU (Pl.)]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

## सं० 56/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

**सा.का.नि. 850(अ).**— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 127(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 245 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"245	15. 04	निम्नलिखित माल अर्थात् :-			
		(क) सभी माल	1.25 रुपए प्रति किलोग्राम	--	--
		(ख) बेकरी खस्ताकार या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसा और तेल तथा उनके प्रभाजो, जो सामान्यतः वनस्पति के रूप में ज्ञात है यदि उनका विनिर्माण ऐसे बेकरी खस्ताकार या "वनस्पति" से किया गया हो जिन पर यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अंतर्गत उचित उत्पाद शुल्क अथवा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अंतर्गत अतिरिक्त सीमाशुल्क, अदा किया जा चुका हो	कुछ नहीं	--	--

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी 2005 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 354/40/2001-टीआरयू (पार्टे)]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**टिप्पण :-** मूल अधिसूचना सं० 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण II खंड 3, उपखंड (i) सा० का० नि० 127 (अ), तारीख 1 मार्च 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 51/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 सितम्बर 2004 [सा० का० नि० 618 तारीख 17 सितम्बर 2004, ] द्वारा किया गया।

3890 41/04-2

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2004

## No. 56/2004-CENTRAL EXCISE

**G.S.R. 850(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.6/2002-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, published in the Gazette of India, vide, number G.S.R.127 (E), dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table, for S.No.245 and the entries relating thereto, following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
245.	15.04	The following goods namely:- (A) All goods	Rs. 1.25 per kilogram	-	-
		(B) Bakery shortening or partially or wholly hydrogenated vegetable fats and oils and fractions thereof, commonly known as "Vanaspati", if manufactured out of bakery shortening or "Vanaspati" on which the appropriate duty of excise under the First Schedule of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) or as the case may be, the additional duties of customs under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) has already been paid.	Nil	-	-

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2005.

[F. No. 354/40/2001-TRU (Pt.)]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

**Note:-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.127 (E), dated the 1st March, 2002, and was last amended by notification No. 51/2004-Central Excise, dated the 17<sup>th</sup> September, 2004 and published vide number G.S.R. 618 (E), dated the 17<sup>th</sup> September, 2004.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

## सं० 57/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

**सा.का.नि. 851(अ).**— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की नगाओं पेपर मिल और कचार पेपर मिल द्वारा निर्मित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 में आने वाले कागज और कागज बोर्ड को उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत और उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, की धारा 5क की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना, जो उस समय प्रभावी है, के साथ पठित उत्पाद शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 तक (दोनों दिन सम्मिलित) प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 354/19/2002-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2004

**No. 57/2004-CENTRAL EXCISE**

**G.S.R. 851(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts paper and paper board falling under Chapter 48 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), and manufactured by Nagaon Paper Mill or Cachar Paper Mill of Hindustan Paper Corporation, from so much of duties of excise set forth thereon in the said First Schedule of the Central Excise Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at fifty *per cent.* of the duties of excise leviable thereon under section 3 of the said Central Excise Act subject to any other notification, issued under sub-section (1) of section 5A of the said Central Excise Act, and is for the time being in force.

2. This notification shall remain in force from the 1<sup>st</sup> day of January, 2005 to the 31<sup>st</sup> day of December, 2005 (both days inclusive).

[F. No. 354/19/2002-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

**शुद्धिपत्र**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

**सा.का.नि. 852(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 836 (अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2004 द्वारा, प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 116/2004-सीमाशुल्क, तारीख 24 दिसम्बर, 2004 में,

- (i) जहां भी पाया जाये, शब्दों तथा अक्षरों “अधिसूचना सं० 83/2000-सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 2000” के स्थान पर “अधिसूचना सं० 10/2001-सीमाशुल्क, तारीख 31 जनवरी, 2001 [ सा०का०नि० 47 (अ) तारीख 31 जनवरी, 2001]” को पढ़ा जाये।
- (ii) टिप्पण का लोप की जाती है

[फा. सं. 354/166/99-टीआरयू (पार्ट-III)]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 31st December, 2004

**G.S.R. 852(E).**— In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 116/2004-Customs, dated the 24<sup>th</sup> December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 836 (E), dated the 24<sup>th</sup> December, 2004,-

- (i) wherever it occurs, for the words and numbers “No. 83/2000-Customs, dated 6<sup>th</sup> June, 2000 ” read, “No. 10/2001-Customs, dated the 31<sup>st</sup> January, 2001[G.S.R.47 (E), dated the 31<sup>st</sup> January, 2001]”;
- (ii) the footnote stands deleted.

[F. No. 354/166/99-TRU (Pt-III)]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.